

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 मार्च 2010—फाल्गुन 13, शक 1931

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. 65-02-10-तीन-1295.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह फरवरी, 2010 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में	शब्दों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, बड़ौनी, जिला-दतिया.	अध्यक्ष	-	-	प्रभादेवी प्रकाशचन्द्र
		पार्षद	1	एक	किरण पप्पी राववाले
		पार्षद	2	दो	श्री राजू झाँ
		पार्षद	3	तीन	श्री लक्ष्मन अहिरवार
		पार्षद	4	चार	श्रीमती जानकी महेश
		पार्षद	5	पाँच	श्रीमती रामदेवी परम प्रजापति
		पार्षद	6	छः	श्रीमती गिरजा सतीश चौबे
		पार्षद	7	सात	श्रीमती दयावती अशोक
		पार्षद	8	आठ	श्री रामकुमार यादव
		पार्षद	9	नौ	श्री जसमन पाल (खुमान)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	10	दस	श्री महेश कांकोरिया
		पार्षद	11	ग्यारह	श्री राजेन्द्र कोरी
		पार्षद	12	बारह	श्रीमती अर्चनादेवी राजा सोनी
		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती कमला वावूलाल नायक
		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती गिरजा संतोष यादव
		पार्षद	15	पन्द्रह	श्री धनूराम आदिवासी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

दूरभाष क्रमांक 0755-2555527

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. 65-02-10-तीन-1296.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अंतर्गत नगर पंचायत के आम निर्वाचन, माह फरवरी, 2010 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद		निर्वाचित व्यक्ति का नाम
			अंकों में (4)	शब्दों में (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, छापीहेड़ा जिला-राजगढ़.	अध्यक्ष पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद पार्षद	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	- एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्रह	श्री महेन्द्र कुमार मुन्नाबाबू निर्मला राजेश अमरसिंह तंवर गिरधारीलाल तंवर रेणु राधेश्याम मंजूबाई ओमप्रकाश होकमचंद पुरालाल चेनसिंह हिम्मतसिंह गीताबाई बृजमोहन राजूबाई बबलू भोलाराम गोपालदास गुलजार बेगम शाहिद भाई मेहरूनिशा फकीर मोहम्मद ललतादेवी जगदीश दीपू बंकटलाल मस्तराम शेतानसिंह मांगीलाल गोकुलप्रसाद

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

दूरभाष क्रमांक 0755-2555527